

## CLASS- 3

### SUBJECT-2<sup>ND</sup> LANGUAGE HINDI

#### CHAPTER- 13

#### TOPIC- चाचा नेहरू

#### WORKSHEET

#### सार:-

- बच्चों आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे इसलिए उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इस कविता में हम चाचा नेहरू के बारे में जानेंगे कि वह कैसे इंसान थे। कवि कहते हैं कि चाचा नेहरू बहुत अच्छे थे। वह सब बच्चों से बहुत प्यार करते थे और दिल के बहुत ही साफ थे।
- चाचा नेहरू हम सभी को बहुत ही प्यारे थे। वे ऐसे इंसान थे जो देश के लिए बलिदान देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब हमारा भारत अंग्रेजों का गुलाम था तब चाचा नेहरू ने हमारे देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के सामने निडर होकर आजादी की लड़ाई लड़े थे।
- चाचा नेहरू हमेशा दूसरों की भलाई में लगे रहते थे। वह अपने देश से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा गरीबों के दुखों को दूर करते थे। चाचा नेहरू हमेशा अपने देश की सेवा में मग्न रहते थे। वह कभी भी मेहनत से नहीं डरते थे।

Q1. निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए:-

- (a) गोरे-
- (b) परोपकार-
- (c) प्रेम-
- (d) दुख हरना-
- (e) लीन रहना-
- (f) देश के ऊपर मरना-

Q2. एक शब्द में उत्तर दें:-

- (a)      कवि ने किसे इस कविता में सबसे अच्छा बताया है?
- (b)      चाचा नेहरू किससे बहुत प्यार करते थे?
- (c)      कवि के अनुसार कौन देश के ऊपर हमेशा मरता था?
- (d)      चाचा नेहरू किससे नहीं डरते थे?
- (e)      चाचा नेहरू किस की सेवा में लीन रहते थे?

Q3. चाचा नेहरू कविता की प्रथम 8 पंक्तियाँ याद करके लिखिए।

**EXERCISES FROM THE BACK OF THE LESSON**

**PAGE NO. 73**

**भाषा- मंथन Q1.**

**नीचे दिए गए शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखें:-**

**PAGE NO. 74.**

**कुछ करने के लिए:-**

**सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं:-**